

भारत सरकार  
पर्यटन मंत्रालय  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 315  
मंगलवार, 15 सितंबर, 2020/24 भाद्रपद, 1942 (शक)  
को दिया जाने वाला उत्तर

- बिहार में नये धार्मिक पर्यटक सर्किट का विकास
315. श्री सतीश चंद्र दुबे:  
क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:  
(क) क्या सरकार की बिहार में नये धार्मिक पर्यटक सर्किट बनाने की कोई योजना है;  
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और  
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) से (ग): पर्यटन स्थलों का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन का दायित्व है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय 'स्वदेश दर्शन' योजना के तहत राज्यों/संघशासित प्रदेशों/केंद्रीय एजेंसियों आदि को विषय आधारित पर्यटन परिपथों के एकीकृत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, 'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक अभियान के राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद)' के तहत अभिज्ञात तीर्थयात्रा और विरासत गंतव्यों के समग्र विकास के उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत 'आध्यात्मिक', 'बौद्ध' और 'तीर्थकर' विषय के अंतर्गत परियोजनाएं स्वीकृत की हैं, जिन्हें धार्मिक पर्यटन परिपथों में माना जा सकता है।

बिहार में स्वदेश दर्शन योजना के तहत 'आध्यात्मिक', 'बौद्ध' और 'तीर्थकर' विषयों और प्रशाद योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	वर्ष	योजना	परिपथ का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
1.	2016-17	स्वदेश दर्शन	तीर्थकर परिपथ	वैशाली - आरा- मसाद- पटना- राजगीर- पावापुरी- चंपापुरी का विकास।	52.39
2.	2016-17	स्वदेश दर्शन	आध्यात्मिक परिपथ	कांवरिया मार्ग : सुल्तानगंज- मोजमा- बांका का समेकित विकास।	52.35

3.	2016-17	स्वदेश दर्शन	बौद्ध परिपथ	बोधगया में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण	98.73
4.	2017-18	स्वदेश दर्शन	आध्यात्मिक परिपथ	मंदार पहाड़ी और अंग प्रदेश का विकास	47.52
5.	2014-15	प्रशाद	--	विष्णुपद मंदिर, गया में मूलभूत सुविधाओं का विकास	4.27
6.	2015-16	प्रशाद	--	पटना साहिब का विकास	41.54

\*\*\*\*\*